



August 9, 2024

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai 400 051

Scrip Code: 543940

Trading Symbol: JIOFIN

Dear Sirs,

Sub: Newspaper clippings – “First Annual General Meeting (Post Listing) and Information on E-voting” and other related information

This is to inform you that the advertisement on the captioned subject has been published today i.e. August 9, 2024 in the newspapers viz., The Times of India (English), The Economic Times (English), Maharashtra Times (Marathi) and Navbharat Times (Hindi).

The newspaper clippings are enclosed for your information and records.

Thanking you

Yours faithfully,

For Jio Financial Services Limited

Mohana V

**Group Company Secretary
and Compliance Officer**

Encl: as above

FIR filed 3 yrs after man's death, HC calls out 'ghost'

Police Duly 'Recorded' His Statement Too

Rajesh Kumar Pandey | [View](#)

Prayagraj: Pools rush in where angels fear to tread. "Ghosts" seem to prove it. Uttar Pradesh police files when the complainant was dead three years before the FIR's filing, Allahabad high court observed on Thursday in one such bizarre matter.

The paranormal parable did not end there in the cheating case filed with Kushnagar police. The investigating officer has been shown duly "recording" the statement of the dead man and has even filed a charge sheet against the accused.

Justice Saurabh Shyam Shamsbery was left baffled when the files showed the complainant had even signed the *vakalatnamah* (filed) on Dec 19, 2021, when he had died in 2011. The FIR was lodged in 2014. "It appears that all the proceedings are undertaken by a ghost," Justice Saurabh Shyam Shamsbery said, unable to take the surreal saga any more.

The HC quashed the proceedings and ordered the Kushnagar SP to probe the investigating officer (IO's)



Delhi Images/Instagram

PARANORMAL PROCEEDINGS:

"It appears that all proceedings are undertaken by a ghost," said Allahabad high court

conduct in the case.

"It is very strange that a dead person has not only lodged an FIR but has recorded his statement before investigating officer (IO) and, thereafter, a *vakalatnamah* has also been filed on behalf of him," Justice Shamsbery said.

The FIR was filed at Kotwal Hata police station of Kushnagar in 2014. Shabb Prakash, the complainant mentioned, had died on Dec 19, 2011. This was corroborated by his official records, including the death certificate, and testimony of his wife.

It remains a mystery how the IO recorded Prakash's statement as if he was alive regarding a hearing on the proceedings, and later filed a charge sheet on Nov 23, 2014, naming him as a prosecution witness.

Girl's testimony nails UP dad in mother's killing

Lucknow | [View](#)

Lucknow: Concluding a murder trial with a year, a court in UP's Sultanpur held a man, 37, guilty of killing his wife after his daughter gave a statement against him, reports Pathikruti Chakravorty.

The man allegedly strangled his wife to death inside the house when they were travelling on Parvanchal Expressway on Aug 13, 2021. He was about to shove his 12-year-old daughter and five-year-old son in petrol and set them ablaze when a police patrol spotted them. A police team broke open the windows and arrested the man.

Later, the children narrated the event in sequence to police. The girl's statement is corroborated by a crucial role in proving the man's guilt. The police charge sheet states that the man was frustrated and had an "inferiority complex" as his wife had a huge fan following on Instagram. She had blocked him on this account and remained glued to the platform even at odd hours.

Woman, 2 others get 20-yr RI for '16 kidnap-gangrape of Dalit teen

Amroha: An additional district and sessions judge sentenced a man to life imprisonment and two others, including a woman, to 20 years of rigorous imprisonment under SC/ST Act for their involvement in kidnaping and gangrape of a Dalit girl in 2016 in the village in UP's Amroha. The court also imposed a collective fine of Rs 12 lakh on the three convicts.

The incident took place on July 16, 2016, when the main convict, accompanied by a neighbour, visited the girl's (then 19) house on pretext of asking for water and kidnaped her. They took her to a sugarcane field near Kailash border and threatened her with knife and gun. Next morning the woman held her hostage at her house and arranged to get her married.

The court also imposed a collective fine of Rs 12 lakh on the three convicts.

Teacher gets 20-yr jail for abusing 12 students

Jaipur: A Pesho court in Rajasthan on Thursday sentenced a school teacher to 20 years in jail after convicting him in a case of sexual abuse of 12 students. The court also imposed a fine of Rs 50,000.

The teacher came to light during a parent-teacher meeting at the school on Dec 7, 2019. He was summoned academically weak students in his room at night under the pretext of extra classes and sodomized them multiple times, the case file said.

ODISHA JOINT ENTRANCE EXAMINATION - 2024 (OJEE - 2024)
PUBLIC NOTICE REGARDING OJEE WEB COUNSELLING FOR 2024-25

No: OJEE/E/375 Date: 08.08.2024

This is for the information of all concerned that OJEE Web-Based Counselling Process for Integrated MBA and Pending process for L.E Pharmacy is going to start from 9th August, 2024 (Friday).

Interested candidates having valid OJEE 2024 Rank (OJEE conducted during May, 2024) are advised to visit OJEE websites (www.ojee.nic.in / www.odishajee.com) and see the detailed Counselling Schedule and the process for these courses.

They are further advised to carefully go through the documents, "Counselling Brochure" and "Step-by-Step Procedure", available in the website to get other detailed information about the entire counselling process. The process of Integrated MBA will be as per the schedule only.

Sd/-
Chairman,
OJEE ODISHA
(CIN:482011100624.2)

Celebrating 25th Silver Jubilee of Kargil Vijay Diwas

Lokmanya Sainik Sanman Yojana

10.80%
Attractive rate of interest on Fixed Deposit

Minimum Amount: ₹ 10,000 & more | Quarterly Interest Returns

Defence pension, both in service & retired | Widows of Defence personnel | Extra 0.60% Interest for Senior Citizens

Minimum 25 months

Maharashtra • Karnataka • Goa • Delhi • Gujarat • Haryana • Jharkhand • Madhya Pradesh • Odisha • Punjab • Rajasthan • Uttar Pradesh • West Bengal • Jammu & Kashmir • Himachal Pradesh

Lokmanya Society
Call 1800 212 4050 | lokmanyasociety.org
PHONE: 020 - 6685 3000

We would be glad to hear from our customers on any queries or complaints that they may have with our service. We invite our customers to call us on 020 for general information and queries, and on 098 for service requests and complaints.

If any customer is not satisfied with the resolution provided for the complaint filed, he/she may choose to file an appeal with the Appellate Authority through any of the modes mentioned in the table below, or by simply calling 098 along with the details of the complaint (Service Request No.).

Customer Care (CCX)	Customer Care Number	For Resolution (Email)	For Resolution (Toll-free)
General Information	020-48444431 020-48444432 020-48444433	020-48444431 020-48444432 020-48444433	020-48444431 020-48444432 020-48444433
Consumer Complaint	020-48444434 020-48444435 020-48444436	020-48444434 020-48444435 020-48444436	020-48444434 020-48444435 020-48444436
Website	www.airtel.in		
Name	Shant Chhayan		
Contact number	98224431 022-402043		
Address	Devi Anand Ltd, 7th Floor, Indira Building No. 7, Laxmi Road, Marol Wadi, Mumbai - 400029		

To register a new complaint <https://www.airtel.in/contact-us>
To check the status of your complaint <https://www.airtel.in/fsc/csr/track-request>
020-48444431 and 020-48444432 are toll-free numbers. Airtel services available at 020-48444431 to 020-48444436 for mobile broadband. Please allow the Appellate Authority 30 days to provide a solution. Appellate Authority numbers are not toll-free. The resolutions of the Appellate Services are available on an Airtel mobile number through SMS or video. Also, the toll-free short code 18222. To visit mobile internet services, SMS 020-48444431 to 020-48444436. To activate SMS 020-48444431 to 020-48444436. *Applicable only in Mumbai.

Notice Inviting Expression of Interest (RI/EA/PEO/2024/01)
(Under International Competitive Bidding)

Reliance is India's largest private sector company, with a consolidated revenue of ₹ 10,03,122 crore (US\$ 119.9 billion), cash profit of ₹ 1,41,969 crore (US\$ 17.0 billion) and net profit of ₹ 79,020 crore (US\$ 9.5 billion) for the year ended March 31, 2024. Reliance is actively open to hydrocarbon exploration and production, petroleum refining and marketing, petrochemicals, advanced materials and composites, renewables (solar and hydrogen), retail and digital services. Currently ranked 10th, Reliance is the largest private sector company from India to be featured in Fortune's Global 500 list of 'World's Largest Companies' for 2024.

Reliance Industries Limited (RIL), an operator on behalf of itself & its co-venturer RIL Exploration (RHEL) Limited invited Expression of Interest (EOI) from reputed and experienced Contractors/Vendors for following categories: For Deep-water Block No. KG-DWN 98/2 (D/C) in East coast of India.

Category Number: OAM/KG/D/2024/1

Category Description: Equipment, Materials & Services (incl. Administrative related services) for Operation and Maintenance of Onshore & Offshore facilities including P&ID.

Interested Contractors/Vendors are requested to visit our website www.ril.com (e2B2 Suppliers- EAP Notices for EOI) for further details on the above and submit their EOI through e-mail on convoenquiries@ril.com or before 30 August 2024. Subject of the mail should mention "RI/EA/PEO/2024/01" along with category number. For documents size beyond 10 MB, Contractors/Vendors should request RIL through e-mail to provide FTP link for uploading EOI documents.

Address for Communication:
Chief - Supply Chain Management,
Reliance Industries Limited, Petrochemicals Business (EAP),
Reliance Corporate Park (RCP),
Building No. 11, 7th Wing, Second Floor,
Thane-Belapur Road, Ghansoli, Navi Mumbai - 400 701, India.
Email: devoenquiries@ril.com
CIN: L7110MH1973PLC019786

Reliance Industries Limited
Group of Companies

CENTRAL RAILWAY
WALK-IN INTERVIEW POST OF TEACHER

Walk-in Interview in Teaching (Category Notification for Filling-up the posts in Teachers Category on contract basis in Central Railway, Secondary School (E.M.) & Jr. College Kalyan, Zone (C) One of Central Railway. Total 01 One post of Contract Teacher are to be engaged on Contract basis in Central Railway, Secondary School (E.M.) & Jr. College, Kalyan. This scheme will be valid for a maximum period of 200 working days and a minimum period of 7 working days or availability of a regularly selected candidate whichever is earlier and subject to any instructions issued from time to time. Schedule of Walk-in Interview: Interview Schedule: 23.08.2024, Time: 10.00 A.M. to 13.00 P.M. Post of Interview: Trained Graduate Teacher (TGT) English, Venue: In the chamber of Principal Central Railway School (E.M.) & Jr. College Kalyan. Note: For further detail please refer to the Central Railway Secondary School Kalyan or visit the following website: 1. www.crrailways.gov.in 2. www.crrailways.gov.in 3. www.crrailways.gov.in 4. www.crrailways.gov.in 5. www.crrailways.gov.in 6. www.crrailways.gov.in 7. www.crrailways.gov.in 8. www.crrailways.gov.in 9. www.crrailways.gov.in 10. www.crrailways.gov.in 11. www.crrailways.gov.in 12. www.crrailways.gov.in 13. www.crrailways.gov.in 14. www.crrailways.gov.in 15. www.crrailways.gov.in 16. www.crrailways.gov.in 17. www.crrailways.gov.in 18. www.crrailways.gov.in 19. www.crrailways.gov.in 20. www.crrailways.gov.in 21. www.crrailways.gov.in 22. www.crrailways.gov.in 23. www.crrailways.gov.in 24. www.crrailways.gov.in 25. www.crrailways.gov.in 26. www.crrailways.gov.in 27. www.crrailways.gov.in 28. www.crrailways.gov.in 29. www.crrailways.gov.in 30. www.crrailways.gov.in 31. www.crrailways.gov.in 32. www.crrailways.gov.in 33. www.crrailways.gov.in 34. www.crrailways.gov.in 35. www.crrailways.gov.in 36. www.crrailways.gov.in 37. www.crrailways.gov.in 38. www.crrailways.gov.in 39. www.crrailways.gov.in 40. www.crrailways.gov.in 41. www.crrailways.gov.in 42. www.crrailways.gov.in 43. www.crrailways.gov.in 44. www.crrailways.gov.in 45. www.crrailways.gov.in 46. www.crrailways.gov.in 47. www.crrailways.gov.in 48. www.crrailways.gov.in 49. www.crrailways.gov.in 50. www.crrailways.gov.in 51. www.crrailways.gov.in 52. www.crrailways.gov.in 53. www.crrailways.gov.in 54. www.crrailways.gov.in 55. www.crrailways.gov.in 56. www.crrailways.gov.in 57. www.crrailways.gov.in 58. www.crrailways.gov.in 59. www.crrailways.gov.in 60. www.crrailways.gov.in 61. www.crrailways.gov.in 62. www.crrailways.gov.in 63. www.crrailways.gov.in 64. www.crrailways.gov.in 65. www.crrailways.gov.in 66. www.crrailways.gov.in 67. www.crrailways.gov.in 68. www.crrailways.gov.in 69. www.crrailways.gov.in 70. www.crrailways.gov.in 71. www.crrailways.gov.in 72. www.crrailways.gov.in 73. www.crrailways.gov.in 74. www.crrailways.gov.in 75. www.crrailways.gov.in 76. www.crrailways.gov.in 77. www.crrailways.gov.in 78. www.crrailways.gov.in 79. www.crrailways.gov.in 80. www.crrailways.gov.in 81. www.crrailways.gov.in 82. www.crrailways.gov.in 83. www.crrailways.gov.in 84. www.crrailways.gov.in 85. www.crrailways.gov.in 86. www.crrailways.gov.in 87. www.crrailways.gov.in 88. www.crrailways.gov.in 89. www.crrailways.gov.in 90. www.crrailways.gov.in 91. www.crrailways.gov.in 92. www.crrailways.gov.in 93. www.crrailways.gov.in 94. www.crrailways.gov.in 95. www.crrailways.gov.in 96. www.crrailways.gov.in 97. www.crrailways.gov.in 98. www.crrailways.gov.in 99. www.crrailways.gov.in 100. www.crrailways.gov.in 101. www.crrailways.gov.in 102. www.crrailways.gov.in 103. www.crrailways.gov.in 104. www.crrailways.gov.in 105. www.crrailways.gov.in 106. www.crrailways.gov.in 107. www.crrailways.gov.in 108. www.crrailways.gov.in 109. www.crrailways.gov.in 110. www.crrailways.gov.in 111. www.crrailways.gov.in 112. www.crrailways.gov.in 113. www.crrailways.gov.in 114. www.crrailways.gov.in 115. www.crrailways.gov.in 116. www.crrailways.gov.in 117. www.crrailways.gov.in 118. www.crrailways.gov.in 119. www.crrailways.gov.in 120. www.crrailways.gov.in 121. www.crrailways.gov.in 122. www.crrailways.gov.in 123. www.crrailways.gov.in 124. www.crrailways.gov.in 125. www.crrailways.gov.in 126. www.crrailways.gov.in 127. www.crrailways.gov.in 128. www.crrailways.gov.in 129. www.crrailways.gov.in 130. www.crrailways.gov.in 131. www.crrailways.gov.in 132. www.crrailways.gov.in 133. www.crrailways.gov.in 134. www.crrailways.gov.in 135. www.crrailways.gov.in 136. www.crrailways.gov.in 137. www.crrailways.gov.in 138. www.crrailways.gov.in 139. www.crrailways.gov.in 140. www.crrailways.gov.in 141. www.crrailways.gov.in 142. www.crrailways.gov.in 143. www.crrailways.gov.in 144. www.crrailways.gov.in 145. www.crrailways.gov.in 146. www.crrailways.gov.in 147. www.crrailways.gov.in 148. www.crrailways.gov.in 149. www.crrailways.gov.in 150. www.crrailways.gov.in 151. www.crrailways.gov.in 152. www.crrailways.gov.in 153. www.crrailways.gov.in 154. www.crrailways.gov.in 155. www.crrailways.gov.in 156. www.crrailways.gov.in 157. www.crrailways.gov.in 158. www.crrailways.gov.in 159. www.crrailways.gov.in 160. www.crrailways.gov.in 161. www.crrailways.gov.in 162. www.crrailways.gov.in 163. www.crrailways.gov.in 164. www.crrailways.gov.in 165. www.crrailways.gov.in 166. www.crrailways.gov.in 167. www.crrailways.gov.in 168. www.crrailways.gov.in 169. www.crrailways.gov.in 170. www.crrailways.gov.in 171. www.crrailways.gov.in 172. www.crrailways.gov.in 173. www.crrailways.gov.in 174. www.crrailways.gov.in 175. www.crrailways.gov.in 176. www.crrailways.gov.in 177. www.crrailways.gov.in 178. www.crrailways.gov.in 179. www.crrailways.gov.in 180. www.crrailways.gov.in 181. www.crrailways.gov.in 182. www.crrailways.gov.in 183. www.crrailways.gov.in 184. www.crrailways.gov.in 185. www.crrailways.gov.in 186. www.crrailways.gov.in 187. www.crrailways.gov.in 188. www.crrailways.gov.in 189. www.crrailways.gov.in 190. www.crrailways.gov.in 191. www.crrailways.gov.in 192. www.crrailways.gov.in 193. www.crrailways.gov.in 194. www.crrailways.gov.in 195. www.crrailways.gov.in 196. www.crrailways.gov.in 197. www.crrailways.gov.in 198. www.crrailways.gov.in 199. www.crrailways.gov.in 200. www.crrailways.gov.in 201. www.crrailways.gov.in 202. www.crrailways.gov.in 203. www.crrailways.gov.in 204. www.crrailways.gov.in 205. www.crrailways.gov.in 206. www.crrailways.gov.in 207. www.crrailways.gov.in 208. www.crrailways.gov.in 209. www.crrailways.gov.in 210. www.crrailways.gov.in 211. www.crrailways.gov.in 212. www.crrailways.gov.in 213. www.crrailways.gov.in 214. www.crrailways.gov.in 215. www.crrailways.gov.in 216. www.crrailways.gov.in 217. www.crrailways.gov.in 218. www.crrailways.gov.in 219. www.crrailways.gov.in 220. www.crrailways.gov.in 221. www.crrailways.gov.in 222. www.crrailways.gov.in 223. www.crrailways.gov.in 224. www.crrailways.gov.in 225. www.crrailways.gov.in 226. www.crrailways.gov.in 227. www.crrailways.gov.in 228. www.crrailways.gov.in 229. www.crrailways.gov.in 230. www.crrailways.gov.in 231. www.crrailways.gov.in 232. www.crrailways.gov.in 233. www.crrailways.gov.in 234. www.crrailways.gov.in 235. www.crrailways.gov.in 236. www.crrailways.gov.in 237. www.crrailways.gov.in 238. www.crrailways.gov.in 239. www.crrailways.gov.in 240. www.crrailways.gov.in 241. www.crrailways.gov.in 242. www.crrailways.gov.in 243. www.crrailways.gov.in 244. www.crrailways.gov.in 245. www.crrailways.gov.in 246. www.crrailways.gov.in 247. www.crrailways.gov.in 248. www.crrailways.gov.in 249. www.crrailways.gov.in 250. www.crrailways.gov.in 251. www.crrailways.gov.in 252. www.crrailways.gov.in 253. www.crrailways.gov.in 254. www.crrailways.gov.in 255. www.crrailways.gov.in 256. www.crrailways.gov.in 257. www.crrailways.gov.in 258. www.crrailways.gov.in 259. www.crrailways.gov.in 260. www.crrailways.gov.in 261. www.crrailways.gov.in 262. [www.crrailways](http://www.crrailways.gov.in)

HC: Will Directors Give Guarantee for SpiceJet Dues?

Court questions airline not paying for engines in use

Express Bureau

New Delhi: Expressing displeasure over SpiceJet's repetitive failures to pay its ₹90 crore outstanding amount to its engine lessors, Team France 01 SAS and Sunbird France 02 SAS, the Delhi High Court on Thursday asked the low-cost airline to confirm by Monday on whether its directors are willing to undertake liability for the airline's dues.

"You've been repeatedly giving undertakings to the court. If you're not in a position to pay, then you should grant these engines. Why are you using them if the company is unable to pay?" Justice Manoj Kumar Singh, Arora said. "If the company alone is liable and it has no money, then perhaps your directors should provide personal guarantees. Otherwise, it seems the directors themselves have no faith in the money coming out of the airline," she told SpiceJet counsel Sandeep Sethi, while seeking personal guarantees from the airline's directors if SpiceJet failed to meet its liabilities.

"This company (SpiceJet) obviously does not have money," the court observed when SpiceJet asked for more time to pay. In the last four hearings, SpiceJet had been promising to pay, but did not give the remaining amount to the lessors, Justice Arora remarked while asking the lessors to respond on whether they would accept the directors' undertaking or would continue proceedings for grounding of engines for non-payment of their dues. The HC had earlier in May directed SpiceJet to pay \$4 million in 4 instalments to two French lessors. This was supposed to work as an interim arrangement for the airline to continue to use their 3 leased engines.



Draft Electoral Roll Has Been Published

Check Name In Voter List Today



voters.eci.gov.in



Android



Voter Helpline App



iOS

Online

Offline

Electoral Registration Officer

1800-22-1950

At Polling Station

10th, 11th, 17th, 18th August 2024

Indian Citizens attaining age 18 by 01/10/2024 are Eligible For Registration.

[ceci.maharashtra.gov.in](#) |
 [Chief Electoral Officer Maharashtra](#) |
 [ceci.maharashtra](#) |
 [CED Maharashtra](#) |
 [CEO, Maharashtra](#)



JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED

(formerly known as Reliance Strategic Investments Limited)

Regd. Office: 1st Floor, Building 4NA, Maker, Midway, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051
 E-mail: investor.relations@jiofi.in | Tel: +91 22 3555 4094
 CIN: L65930MH1999PLC1201918

NOTICE FOR THE ATTENTION OF MEMBERS OF THE COMPANY FIRST ANNUAL GENERAL MEETING (POST LISTING) AND INFORMATION ON E-VOTING

Notice concerning the First Annual General Meeting (Post Listing) ("AGM") of the Company, scheduled to be held in accordance with applicable laws issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on **Friday, August 30, 2024 at 2:00 p.m. (IST)**, and the standalone and consolidated audited financial statements for the financial year 2023-24, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, has been sent on **Thursday, August 8, 2024**, electronically to the members of the Company. The Notice of the AGM and the attached documents are available on the Company's website at www.jiofi.in and on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("KFinTech") at <https://evoting.kfintech.com>.

The documents referred to in the Notice of the AGM are available for inspection electronically by the members from the date of circulation of the Notice of the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to rs.agm@jiofi.in.

Remote e-voting and e-voting at the AGM:

The Company is providing to its members, facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below, "remote e-voting". The Company has engaged the services of KFinTech as the agency to provide e-voting facility.

Information and instructions comprising manner of voting, including voting remotely by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and by members who have not registered their email address has been provided in the Notice of the AGM. The manner in which all persons who become members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the Cut-off Date mentioned herein; and all members who have forgotten the User ID and Password can obtain / generate the User ID and Password, has also been provided in the Notice of the AGM.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:


Commencement of e-voting: **1:00 p.m. IST on Sunday, August 25, 2024**
 End of remote e-voting: **5:00 p.m. IST on Thursday, August 29, 2024**

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module will be forthwith disabled by KFinTech upon expiry of the aforesaid period.

Place: Mumbai
 Date: August 9, 2024

Mohana V
 Group Company Secretary and Compliance Officer

www.jiofi.in



Transforming Spaces, Transcending Boundaries

Revenue (YoY)

42%

EBITDA (YoY)

37%

PAT (YoY)

36%

Extract of the statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2024
 (Rs. in crores except earnings per share)

Sr. No.	Particulars	CONSOLIDATED			
		Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	202.91	192.48	142.92	685.10
2	Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax & Exceptional Items)	22.55	21.24	15.60	80.78
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (After Exceptional Items)	22.55	21.24	15.60	80.78
4	Net Profit/(Loss) for the period After Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	15.86	15.78	11.66	58.36
5	Total Comprehensive Income after tax	15.87	16.36	9.76	55.72
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/- each)	5.37	5.36	5.36	5.36
7	Other Equity				348.83
8	Earnings per Share (of Rs. 2/- each) (Not Annualized)				
	(a) Basic (Rs. /-)	5.91	5.79	4.32	21.59
	(b) Diluted (Rs. /-)	5.90	5.78	4.31	21.55

Notes:

a. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2024 are available on the website of the Stock Exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company Website www.carysil.com respectively.

b. The statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and other relevant provisions of the Act.

c. Financial result of Carysil Limited (Standalone) (Rs. in crores)


Particular	Quarter Ended		Year Ended	
	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Revenue from operation	102.49	107.47	79.50	377.90
Profit before tax	9.26	10.42	5.39	48.18
Profit for the period	9.26	11.57	3.85	36.27

d. The above results were reviewed by the Audit Committee, and approved by the Board of Directors in their meeting held on August 08, 2024.

e. The figures for the Quarter Ended March 31, 2024 are balancing figures between audited figures in respect of full financial year up to March 31, 2024 and unaudited published year-to-date figures up to December 31, 2023 being the date of the third quarter of the financial year which were subjected to limited review.

By Order of the Board
 For CARYSIL LIMITED

CHIRAG A. PARBH
 CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
 (DIN: 0026469)



CARYSIL LIMITED
 CIN: L26147MH1987PLC042283 | Registered Office: A 702, 7th Floor, Kinara Wadi Street, Chakoti, Anandhi Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400093
 Tel: 022 4390 2000 | Website: www.carysil.com | E-mail: cs@carysil.com



HIGHEST EVER PROFITABILITY AND SALES

Premium Window Films and Paint Protection Films

CONSOLIDATED REVENUE

25%

YOY

CONSOLIDATED PBT

101%

YOY

CONSOLIDATED PAT

102%

YOY

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON JUNE 30, 2024.

(₹ in Crores)

Particulars	Standalone			Consolidated		
	Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended
	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
Total Income from operation	47.20	430.31	336.04	1,620.37	485.80	388.61
Net Profit/(Loss) for the period before tax and exceptional items	132.47	78.85	38.14	238.93	117.52	75.07
Net Profit/(Loss) for the period after tax and Exceptional Items	132.47	78.85	38.14	238.93	117.52	75.07
Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	115.63	98.43	33.64	188.44	100.52	57.96
Equity Share Capital	23.23	23.23	23.23	23.23	23.23	23.23
Reserves and Surplus				1,855.37		2,301.57
Earnings Per Share (not annualized) (Face value of ₹ 10/- each)						
Basic	44.78	24.59	12.31	77.88	38.03	24.68
Diluted	44.78	24.59	12.31	77.88	38.03	24.68

Notes:

1) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 8th August, 2024.

2) The Company operates in one segment only i.e. Polyester Films and therefore, has only one reportable segment in accordance with IND AS 108 (reporting segment).

3) The figures of the quarter ended March 31, 2024 are balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year-to-date figures up to the third quarter of the financial year for the period ended December 31, 2023.

4) Previous period figures have been regrouped and reclassified to make them comparable with the figures of the current period.

5) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results are available on the website of stock exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on the website of the Company (www.garwarehitechfilms.com).

For GARWARE HI-TECH FILMS LIMITED

DR. SHASHIKANT B. GARWARE
 CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR
 DIN : 0043322

GARWARE HI-TECH FILMS LIMITED
 Registered Office: Naigaoan, Post: Wajui, Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) - 431133. CIN : L10899MH1957PLC010869
 Corporate Office: Garware House 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (E), Mumbai-400 057
 Website: www.garwarehitechfilms.com. Telephone: 091 022 6986 8000. Email: cs@garwarehitech.com

